

# आर्मी पब्लिक स्कूल भुज

## कार्यपत्रिका - (2020)

विषय - हिंदी

कक्षा - 7  
पूर्णांक - 40

### खंड - क ( अंक - 10 )

प्रश्न -1 निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए- (5)

स्वर्ण - श्रृंखला के बंधन में  
अपनी गति, उड़ान सब भूले ,  
बस सपनों में देख रहे हैं  
तरु की फुनगी पर के झूले ।  
ऐसे थे अरमान कि उड़ते  
नीले नभ कि सीमा पाने ,  
लाल किरण - सी चोंच खोल  
चुगते तारक - अनार के दाने  
होती सीमाहीन क्षितिज से  
इन पंखों कि होड़ा -होड़ी ।

- प्रश्न-1 (1) पक्षी क्या करना चाहते हैं ?  
(2) पिंजरे में बंद होकर पक्षी क्या भूल गए हैं ?  
(3) पक्षियों कि इच्छा क्या है ?  
(4) पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं ?  
(5) काव्यांश के द्वारा कवि क्या संदेश दे रहा है ?

प्रश्न -2 निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए- (5)

रस्तों में कीचड़ सूख गया है और गाँव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं । अपने-अपने मौसम की अपनी-अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिलें, चिंता नहीं, अगहन में चिउड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। दो-एक ही तो कूद सका था, नहा-धोकर बीमार हो गया। दादी माँ को गाँव की पचासों किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गाँव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुँचतीं और वहाँ भी वही काम।

- प्रश्न-1 लेखक को क्या बुरा लगता था ?  
प्रश्न-2 दादी माँ को क्या याद था ?  
प्रश्न-3 गाँव के लड़के किस महीने में जलाशय में कूद रहे थे ?  
प्रश्न-4 लेखक को तालाब के पानी में क्यों नहीं कूदने दिया गया ?  
प्रश्न-5 आषाढ़ के महीने में इनमें से प्रायः क्या मिलता है?

### खंड - ख व्याकरण ( अंक - 10 )

- प्रश्न-3 लिपि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए ? [2]  
प्रश्न-4 ' यह पर्वत बहुत ऊँचा है ।, में रेखांकित शब्द है । [2]  
प्रश्न-5 व्यंजन किसे कहते हैं ? व्यंजन के कितने भेद हैं ? उनके नाम लिखिए ? [2]  
प्रश्न-6 ' मैं पत्र लिख रहा हूँ ।' वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन - सा है [2]

प्रश्न-7 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए -

[2]

- (1) ज्वर (2) आश्रय (3) उन्मुक्त (4) उल्लास

खंड - ग ( अंक - 10 )

प्रश्न - 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए - (1x4=4)

प्रश्न-1 दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा बनाया ?

प्रश्न-2 महाभारत की रचना किसने की ?

प्रश्न-3 अंबा शिखंडी कैसे बन गई ?

प्रश्न-4 खांडवप्रस्थ कैसी नगरी थी ? बाद में उसका क्या नाम रखा गया ?

प्रश्न - 9 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक लिखिए - (2x3=6)

प्रश्न-1 काका कालेकर ने नदियों को 'लोकमाता' क्यों कहा है ?

प्रश्न-2 कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती ?

प्रश्न-3 हर तरह की सुख-सुविधाएँ पाकर भी पक्षी-पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते ?

खंड - घ (अंक 10)

प्रश्न -10 निम्नलिखित दिए गए किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए- (5)

(1) परोपकार

(2) समय का सदुपयोग

(3) खेल का महत्त्व

प्रश्न -11 अपनी बड़ी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना-पत्र लिखिए । (5)